



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 716) पटना, मंगलवार, 2 सितम्बर 2014

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2014

सं0 8/नियम संशोधन (रा0मेला)-03-09/2011-259(8)/रा0—विभागीय अधिसूचना सं0 677(8)/रा0, दिनांक 10.09.2009 द्वारा बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में दिए गये निम्नांकित मेलों को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाता है:-

- (i) पितृपक्ष मेला, गया;
- (ii) हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर (सारण)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शशि भूषण तिवारी,

निदेशक-सह-विशेष सचिव, भू-अर्जन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 716-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>